

वायु प्रदूषण नियंत्रण पर दिल्ली की शीतकालीन योजना

प्रलम्ब के लिये:

वायु प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), दिल्ली नगर नगिम (MCD), पीएम 2.5 उत्सर्जन, भूमंडलीय लेवल ओजोन (O3) प्रदूषण, सफर, पराली दहन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC), धुंध, पराबैंगनी (UV) विकिरण।

मेन्स के लिये:

सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में भूमंडलीय ओजोन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिये 21 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना शुरू की, जिसमें वास्तविक समय ड्रोन सर्वेक्षण और एक विशेष टास्क फोर्स शामिल है।

दिल्ली की शीतकालीन कार्य योजना में क्या शामिल है?

- **वास्तविक समय ड्रोन सर्वेक्षण:** पहली बार ड्रोन वास्तविक समय डेटा प्रदान करने और प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने के लिये पूरे शहर में प्रदूषण हॉटस्पॉट की नगिरानी करेंगे।
- **वर्षा कार्य बल:** कार्य योजना के कार्यान्वयन की नगिरानी और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित कार्य बल की स्थापना की जाएगी।
- **योजना के मुख्य केंद्र बढि:** इस योजना का लक्ष्य प्रदूषण के हॉटस्पॉटों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका लक्ष्य उच्चतम प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना है।
 - यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करके तथा धूल को नियंत्रित करके वाहनों और धूल प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है।
 - रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक घर से कार्य करने की नीति है, जिसका उद्देश्य नज्दी संगठनों को दूरस्थ कार्य अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।
 - यह योजना पराली एवं अपशषिट दहन की समस्या से निपटती है, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करती है तथा वाहनों की सम-वर्षि योजना, प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिये कृत्रिम वर्षा और हरति रत्न (पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने वाले संगठनों के लिये एक हरति पुरस्कार) जैसे आपातकालीन उपायों हेतु तैयारी करती है।
- **प्रमुख हतिधारक:** प्रदूषण की नगिरानी के लिये पर्यावरण विभाग को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), दिल्ली नगर नगिम (MCD), दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास नगिम (DSIIDC) के साथ मलिकर योजना के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करने हेतु नामित किया गया है।

सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं?

- **पराली दहन:** पंजाब और हरियाणा में किसान अगली फसल हेतु अपने खेतों को तैयार करने के लिये फसल अवशेष जलाते हैं। इससे बहुत अधिक धुआँ तथा पार्टिकुलेट मैटर (PM) का उत्सर्जन होता है, जो वायु के साथ दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पहुँच जाता है।
 - वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के अनुसार, वर्ष 2023 में दिल्ली के प्रदूषण में पराली दहन का योगदान महत्वपूर्ण था।
 - पराली दहन से वातावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), मीथेन (CH4) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) जैसी हानिकारक गैसें शामिल हैं।
- **वाहन उत्सर्जन:** दिल्ली में चलने वाली असंख्य कारों, ट्रकों, बसों और दोपहिया वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है।
 - ऑब्जरवर रसिर्च फाउंडेशन में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, दिल्ली में पीएम 2.5 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत परिवहन क्षेत्र है।

(कुल पीएम 2.5 उत्सर्जन का 28%) ।

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के अनुसार, दिल्ली में ट्रैफिक हॉट स्पॉट **भूमंडलीय लेवल ओज़ोन (O3) प्रदूषण** के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, जिसके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं ।
- **वायु की दशा:** दिल्ली के वायु प्रदूषण में विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान वायु की दशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । **दिल्ली में वायु की प्रमुख दशा मानसून के बाद उत्तर-पश्चिमी होती है ।** हरियाणा व पंजाब में जब पराली दहन किया जाता है तो ये वायु शहर में धूल और धुआँ लेकर आती है ।
 - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, **सर्दियों में दिल्ली की 72% वायु भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों और पाकिस्तान से आती है**, जबकि शेष 28% वायु सधु-गंगा के मैदानों से आती है ।
 - वायु की दशा में परिवर्तन हानिकारक प्रदूषकों को शहर में प्रवेश करने से रोकता है ।
 - **ला नीना** वायुमंडलीय परिसंचरण गतिशीलता में परिवर्तन करके **दिल्ली में वायु पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित** कर सकता है ।
- **शुष्क एवं स्थिर वायु:** सर्दियों में कम वर्षा और कम वायु गति के कारण प्रदूषक बह नहीं पाते या फैल नहीं पाते, जिससे वायु की गुणवत्ता में कमी आती है तथा वायु में PM का संचय होता है ।
- **तापमान व्युत्क्रमण:** तापमान व्युत्क्रमण एक ऐसी घटना है, जो तब होती है जब **वायु का तापमान सामान्य रूप से घटने के बजाय ऊँचाई के साथ बढ़ता है ।** इससे ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म वायु की एक परत बन जाती है, जिससे प्रदूषक ज़मीन के पास फँस जाते हैं ।
 - दिल्ली का प्रदूषण सर्दियों में, जब मौसम ठंडा और शांत होता है, तापमान व्युत्क्रमण से प्रभावित होता है ।
 - **प्रदूषक नचिले वायुमंडल में एकत्र हो जाते हैं और धुंध** की एक मोटी परत बनाते हैं, जो प्रदूषकों को ऊपर उठने तथा फैलने से रोकता है, जिससे सतह के पास प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है ।
- **प्रदूषण के अन्य स्रोत:** अन्य शीतकालीन प्रदूषण स्रोतों में शामिल हैं; धूल भरी आँधी जो शुष्क क्षेत्रों से धूल लाती है, त्योहारों के दौरान पटाखे जो धुआँ एवं धात्विक कणिका पदार्थ मुक्त करते हैं तथा हीटिंग के लिये घरेलू बायोमास जलाना जो वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड और कण जोड़ता है ।
 - IIT-कानपुर द्वारा वर्ष 2015 में किये गए एक अध्ययन में कहा गया है **कसिर्दियों में दिल्ली में 17-26% कण बायोमास जलने के कारण उत्पन्न होते हैं ।**


वायु प्रदूषण से संबंधित भारत सरकार की पहल क्या हैं?

- [ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान \(दिल्ली\)](#)
- ['वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली'- सफर \(SAFAR\) पोर्टल](#)
- [राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम \(National Air Quality Monitoring Programme- NAMP\)](#)
- [वायु गुणवत्ता सूचकांक \(AQI\)](#)
 - [टर्बो हैपपी सीडर \(THS\)](#)
- [प्रदूषणकरता द्वारा भुगतान](#)
- **वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु:**
 - [बीएस-VI वाहन](#)
 - [इलेक्ट्रिक वाहनों \(EV\) को बढ़ावा देना](#)
 - आपातकालीन उपाय के रूप में [ऑड-ईवन पॉलिसी](#) (दिल्ली के लिये) ।

वायु प्रदूषण से संबंधित प्रमुख शब्दावली:

- **वायु गुणवत्ता सूचकांक:** यह दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिये एक सूचकांक है । यह प्रदूषित वायु में साँस लेने के कुछ घंटों या दिनों के बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है ।
 - AQI की गणना आठ प्रमुख वायु प्रदूषकों के माध्यम से की जाती है; **ग्राउंड-लेवल ओज़ोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), अमोनिया (NH3), और लेड (Pb) ।**
- **वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) :** ये कार्बन युक्त रसायन हैं, जो पेट्रोल और डीज़ल वाहनों से उत्सर्जित होते हैं, जिनका प्रभाव वायु की गुणवत्ता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है ।
 - हालाँकि VOCs की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है । पौधेपरागणकों को आकर्षित करने, कीटों और शिकारियों से खुद को बचाने तथा पर्यावरणीय तनाव के अनुकूल होने के लिये इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं ।
- **ग्राउंड-लेवल ओज़ोन:** ग्राउंड-लेवल ओज़ोन या **ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन**, एक द्वितीयक प्रदूषक है जो **वाहनों, उद्योगों और वदियुत् संयंत्रों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से उत्पन्न होता है, जिसका स्तर विशेष रूप से गर्मियों के दौरान बढ़ जाता है । यह पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर निर्मित एक रंगहीन गैस है ।**

वायु प्रदूषक



आगे की राह:

- उत्सर्जन नियंत्रण नीतियाँ: वाहन उत्सर्जन नियमों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना और **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कیم (EMPS) 2024** तथा जन जागरूकता जैसे अभियानों के माध्यम से **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** में परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- अपशिष्ट प्रबंधन और वनियमन: खुले में अपशिष्ट को जलाने और लैंडफिल उत्सर्जन को कम करने हेतु अपशिष्ट प्रबंधन में सख्त वनियमन एवं प्रभावी प्रवर्तन।
 - दिल्ली में भारत के अन्य भागों से नरिमाण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम मानकों की जाँच करके अपने वायु गुणवत्ता प्रबंधन का वसितार किया जा सकता है, जैसे कसूरत की स्वच्छ नरिमाण पुस्तिका और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति (2015 तथा 2020 के बीच खुले में अपशिष्ट जलाने में 25% से 2% की कमी), एवं इंदौर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (जिसमें पूर्ण अपशिष्ट पृथक्करण व डोर-टू-डोर संग्रह शामिल है)।
 - खुलेआम जलाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिये पुनर्चक्रण, खाद नरिमाण और अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने की पहल को प्रोत्साहित करना।
- फसल अवशेष प्रबंधन (CRM): किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिये हैप्पी सीडर जैसे सतत् और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करके तथा सब्सिडी वाले फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की तैनाती करके फसल जलाने की समस्या का समाधान करना।
 - इन तरीकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने से अपशिष्ट को जलाने की आवश्यकता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- हरति अवसंरचना का कार्यान्वयन: प्रदूषकों को अवशोषित करने की शहर की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने हेतु **शहरी हरति पहलों** को बढ़ावा देना, जैसे का हरति पट्टियाँ, पार्कों और **वनरोपण परियोजनाओं का विकास करना।**

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिये। इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये लागू किये गए वर्तमान उपायों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधिकरण (एन.जी.टी.) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भन्नि है? (2018)

1. एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा कयिा गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कयिा गया है।
2. एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता कराता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहति कराता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

?????????

प्रश्न. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी संशोधति वैश्विक वायु गुणवत्ता दशिा-नरिदेशों (AQGs) के प्रमुख बढिओं का वर्णन कीजयि। 2005 में इसके अंतमि अद्यतन से ये कैसे भन्नि हैं? संशोधति मानकों को प्राप्त करने के लयि भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक हैं? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delhi-s-winter-plan-to-curb-air-pollution>

